



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21—जुलाई 27, 2012 (आषाढ़ 30, 1934)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21—JULY 27, 2012 (ASADHA 30, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं,	631	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं,	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	703	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं),	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश,	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	1045	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,	1325
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम,	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस,	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ,	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट,	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं,	5233
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं),	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस,	627
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण,	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	631	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	703	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1045	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1325
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5233
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	627
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2012

सं. 11022/48/2008-पीएमए--इस मंत्रालय की दिनांक 26 अप्रैल 2012 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा इस मंत्रालय की दिनांक 27 अगस्त 1969 की अधिसूचना संख्या 9/11/69-पी-IV, दिनांक 19 अप्रैल, 1974 की अधिसूचना संख्या 9/94/72-जी पी ए-II, दिनांक 03 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या 9/78/74-जी पी ए-II (III), दिनांक 25 मार्च 1977 की अधिसूचना संख्या 1/68/76-जी पी ए-III, दिनांक 23 सितम्बर, 1989 की अधिसूचना संख्या 11026/5/88-एन पी सी, दिनांक 08.08.2001 की अधिसूचना संख्या 11022/6/2001-पीएमए तथा दिनांक 22.06.2010 की अधिसूचना संख्या 11024/01/2008-पीएमए के क्रम में तथा राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 23 फरवरी, 1962 की अधिसूचना संख्या 30-प्रेस/62 के अंतर्गत 03 मार्च, 1962 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित पुलिस (विशेष ड्यूटी) मेडल प्रदान किए जाने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 1 के अनुसार केन्द्र सरकार, एतद्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में प्रतिनियुक्ति पर राज्य पुलिस अधिकारियों तथा आईपीएस अधिकारियों सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिक (अनुसचिवीय स्टाफ तथा सिविल इंजीनियरिंग स्टाफ को छोड़कर) भी राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में दो वर्ष की सतत् सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद पुलिस (विशेष ड्यूटी) मेडल प्रदान किए जाने के लिए पात्र होंगे।

2. ये आदेश जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे।

के. के. मित्तल
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2012

संकल्प

विषय:-- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) का कार्यकाल समाप्त होने पर पुनर्गठन।

सं. 6-4/2010-एमसी (पार्ट)--उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में भारत

सरकार ने श्री मोइनुल हसन के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण हुई रिक्ति के प्रति श्री अली अनवर अंसारी, संसद सदस्य, राज्य सभा, 74 नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) के सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। श्री अली अनवर अंसारी का कार्यकाल 22.12.2014 तक होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

अमित खरे
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2012

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद् का गठन

सं. 7-1/2011-बीपी--उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 के समसंख्यक संकल्प के अनुसरण में, मुझे यह सूचित करना है कि प्रोफेसर अखलाक मोहम्मद खान 'शहरयार' जिनका हाल ही फरवरी, 2012 में निधन हो गया था, के स्थान पर प्रोफेसर गोपी चंद नारंग को राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और योजना आयोग को भेजी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

वीना ईश
संयुक्त सचिव (बीपी तथा सीआर)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd July 2012

No. 11022/48/2008-PMA—In supersession of this Ministry's Notification of even number dated 26th April, 2012 and in continuation to this Ministry's Notification No. 9/11/69-P.IV dated 27th August, 1969, No. 9/94/72-GPA.II dated 19th April, 1974, No. 9/78/74-GPA.II(III) dated 3rd December, 1976, No. 1/68/76-GPA.III dated 25th March, 1977, No. 11026/5/88-NPC dated 23rd September, 1989, No. 11022/6/2001-PMA dated 08.08.2001 and No. 11024/01/2008-PMA dated 22.06.2010 and in accordance with the Rule 1 of the Rules governing the award of Police (Special Duty) Medal notified in the Gazette of India on 3rd March, 1962 under the President's Secretariat Notification No. 30-Pres/62 dated 23rd Feb., 1962, the Central Government hereby specify that the CAPF personnel alongwith State Police Officers as well as IPS officers on deputation to NSG (excluding the ministerial staff and civil engineering staff) will also be eligible for the award of the Police (Special Duty) Medal on successful completion of continuous service of two years in NSG.

2. These orders will take effect from the date of issue.

K. K. MITTAL
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th June 2012

RESOLUTION

Subject :—Reconstitution of the National Monitoring Committee for Minorities' Education (NMCME) on expiry of tenure.

No. 6-4/2010-MC (Pt.)—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 23rd December, 2011 on the subject mentioned above, the Government of India has decided to nominate Shri Ali Anwar Ansari, Member of Parliament, Rajya Sabha, 74, North Avenue, New Delhi-110001

as Member of the National Monitoring Committee for Minorities' Education (NMCME) against the vacancy caused by the retirement of Shri Moinul Hassan, from the membership of Rajya Sabha. The term of Shri Ali Anwar Ansari will be upto 22.12.2014.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Chairman and other Members of the Committee.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

AMIT KHARE
Jt. Secy.

New Delhi, the 29th June 2012

RESOLUTION

Subject :—National Book Promotion Council—Setting up of

No. 7-1/2011-BP—In continuation of this Department's Resolution of even number dated 21st October 2011 on the above mentioned subject, I am to inform that Prof. Gopi Chand Narang has been nominated as a Member of the National Book Promotion Council in place of Prof. Akhlaq Mohammed Khan 'Shahryar' who passed away recently in February 2012.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be sent to all the State Governments and Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and Planning commission.

Ordered also that the above Resolution be published in the Gazette of India for information.

VEENA ISHA
Jt. Secy. (BP & CR)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012